



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग—II खण्ड—3 उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 366]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24, 1979/अग्राहायण 3, 1901

No. 366]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24, 1979/AGRAHAYANA 3, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1979

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th November, 1979

CENTRAL EXCISES

क्रा० का० वि० 638 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1(क) के अन्तर्गत आने वाले अप्रसंस्कृत सूती कपड़े को, जब उसका प्रयोग उसी कारखाने में, जिसमें उसका उत्पादन किया गया है, उक्त मद 19 की उपमद 1(ख) के अन्तर्गत आने वाले प्रसंस्कृत सूती कपड़े के आने विनिर्माण के लिए किया जाता है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[290/79-फा० सं० 357/7/79-टी आर यू]

G.S.R. 638(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts unprocessed cotton fabrics, falling under sub-item I (a) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when used within the factory in which they have been produced for further manufacture of processed cotton fabrics, falling under sub-item I (b) of the said Item No. 19, from the whole of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

[290/79-F. No. 357/7/79-TRU]

सं० का० वि० 639 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मब सं० 19 की उपमद 1(ख) के अन्तर्गत आने वाले प्रसंस्कृत सूती तान्त्व को, जब उसका प्रयोग उसी कारखाने के भीतर, जिसमें उसका उत्पादन किया गया है, उक्त उपमद 1(ख) के अन्तर्गत आने वाले सूती कपड़े के विनिर्माण के लिए किया जाता है, और उस पर कोई भागे प्रक्रिया की जाती है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

[291/79-फा० सं० 357/7/79-टी आर यू]

G.S.R. 639(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts processed cotton fabrics, falling under sub-item 1 (b) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when used within the factory in which they have been produced for the manufacture of cotton fabrics, subjected to any further processing, falling under the said sub-item 1 (b) from the whole of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

[291/79-F. No. 357/7/79-TRU]

सं० का० वि० 640 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 80/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यदि,—

- (1) उक्त मब सं० 19 की उपमद 1(क) के अन्तर्गत आने वाले अप्रसंस्कृत सूती तान्त्व पर, जिसपर उत्पाद-शुल्क पूर्णतः या भागतः उद्ग्रहणीय है, उस कारखाने के भीतर, जिसमें उक्त अप्रसंस्कृत तान्त्व उत्पादित किया गया है, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट कोई प्रक्रिया या प्रक्रियाएं की जाती हैं, या
- (2) उक्त मब 19 की उपमद 1 के अन्तर्गत आने वाले सूती तान्त्व पर उसी कारखाने के भीतर, जिसमें उन पर कोई प्रक्रिया की गई है, सारणी में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं से अतिरिक्त कोई प्रक्रिया या प्रक्रियाएं की जाती हैं, तो ऐसी कोई छूट लागू नहीं होगी।"

[292/79-फा० सं० 357/7/79-टी आर यू]

G.S.R. 640(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 80/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976, namely :—

In the said notification, before the Table, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that no such exemption shall apply—

- (i) if unprocessed cotton fabrics falling under sub-item 1 (a) of the said Item No. 19 on which the duty of excise is leviable either in whole or in part, are subjected to any process or processes specified in the said Table, within the factory in which the said unprocessed fabrics have been produced; or
- (ii) if cotton fabrics falling under sub-item 1 of the said Item No. 19 are subjected to any process or processes specified in the said Table within the same factory in which they have been subjected to any process, other than the processes specified in the Table."

[292/79-F. No. 357/7/79-TRU]

सं० का० वि० 641 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 122/76 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यदि,—

- (1) उक्त मब सं० 19 की उपमद 1(क) के अन्तर्गत आने वाले अप्रसंस्कृत सूती तान्त्व पर, जिस पर उत्पाद-शुल्क पूर्णतः या भागतः उद्ग्रहणीय है, उस कारखाने के भीतर, जिसमें उक्त अप्रसंस्कृत तान्त्व उत्पादित किया गया है, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट कोई प्रक्रिया या प्रक्रियाएं की जाती हैं, या
- (2) उक्त मब 19 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले सूती तान्त्व पर, उसी कारखाने के भीतर, जिसमें उन पर कोई प्रक्रिया की गई है, सारणी में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं से अतिरिक्त कोई प्रक्रिया या प्रक्रियाएं की जाती हैं, तो ऐसी कोई छूट लागू नहीं होगी।"

[293/79-फा० सं० 357/7/79-टी आर यू]

G.S.R. 641(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 122/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976, namely :—

In the said notification, before the Table, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that no such exemption shall apply—

- (i) if unprocessed cotton fabrics falling under sub-item 1 (a) of the said Item No. 19, on which the duty of excise is leviable either in whole or in part, are subjected to any process or processes specified in the said Table, within the factory in which the said unprocessed fabrics have been produced; or
- (ii) if cotton fabrics falling under sub-item 1 of the said Item No. 19 are subjected to any process or processes specified in the said Table, within the same factory in which they have been subjected to any process, other than the processes specified in the Table."

[293/79-F. No. 357/7/79-TRU]

सां. कां. निं. 642 (घ):—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद 21 की उपमद (1)(ख) के अधीन आने वाले प्रसंस्कृत ऊनी तंतु को, जब उनका उपयोग उसी कारखाने के भीतर, जिसमें उनका उत्पादन हुआ है, उपमद (1)(ख) के अधीन आने वाले किसी और प्रसंस्करण के अधीन रहते हुए, उसी कपड़ों के विनिर्माण में किया जाता है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

[294/79-फा. सं. 357/7/79-टी. प्रार. सू.]

G.S.R. 642(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts processed woollen fabrics, falling under sub-item (1) (b) of Item No. 21 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when used within the factory in which they have been produced for the manufacture of woollen fabrics, subjected to any further processing, falling under the said sub-item (1)(b), from the whole of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

[294/79-F. No. 357/7/79-TRU]

सां. कां. निं. 643 (घ):—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद 21 की उपमद (1) के अधीन आने वाले ऊनी काड़े को, जब मादे बेलनों से उन पर कलेन्डर प्रक्रिया की जाती है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है;

परन्तु यह छूट उन वस्त्रों में लागू नहीं होगी जब उक्त उपमद (1) के अधीन आने वाले ऊनी कपड़े पर उसी कारखाने के भीतर, जिसमें उस पर कोई अन्य प्रक्रिया की गई है, मादे बेलनों से कलेन्डर प्रक्रिया की जाती है।

[295/59-फा. सं. 357/7/79-टी. प्रार. सू.]

G.S.R. 643(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts woollen fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 21 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when subjected to the process of calendaring with plain rollers, from the whole of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957);

Provided that no such exemption shall apply if woollen fabrics falling under the said sub-item (1) are subjected to the process of calendaring with plain rollers within the same factory in which they have been subjected to any other process

[295/79-F. No. 357/7/79-TRU]

सां. कां. निं. 644 (घ):—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 22 की उपमद (1)(ख) के अधीन आने वाले प्रसंस्कृत कृत्रिम तान्त्रिक को, जब उसका उपयोग उसी कारखाने के भीतर जिसमें उनका उत्पादन हुआ है, उपमद (1)(ख) के अधीन आने वाले ऐसे कृत्रिम कपड़े के विनिर्माण में किया जाता है, जिस पर कोई अन्य प्रक्रिया की गई है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

[सं. 296/79-फा. सं. 357/7/79-टी. प्रार. सू.]

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts processed man-made fabrics, falling under sub-item (1) (b) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when used within the factory in which they have been produced for the manufacture of man-made fabrics, subjected to any further processing, falling under the said sub-item (1) (b), from the whole of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

[296/79-F. No. 357/7/79-TRU]

सां. कां. निं. 645 (घ):—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 22 की उपमद (1) के अधीन आने वाले कृत्रिम तान्त्रिक को, जब उस पर, इसके साथ उपाखण्ड सारणी में विनिर्दिष्ट परिसाधन प्रक्रियाएँ की जाती हैं, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है:

परन्तु यदि उक्त उपमद (1) के अधीन आने वाले कृत्रिम तान्त्रिक पर, उसी कारखाने में, जिसमें उन पर सारणी में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं में निम्न कोई प्रक्रिया की गई है, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट कोई प्रक्रिया या प्रक्रियाएँ की जाती हैं तो ऐसी कोई छूट लागू नहीं होगी।

सारणी

क्रम सं.	विवरण
1	2
1.	सपाट बेलनों से कलेन्डर करना;
2.	झुलमाना, अर्थात्, तान्त्रिक की गाँठों और छितरे सिरों को जवाना;
3.	पैकिंग, अर्थात् तान्त्रिक के एक या दोनों और प्राकृतिक मंड लगाना;
4.	पृष्ठ भरण, अर्थात् तान्त्रिक के एक और मंड लगाना;
5.	समाकर्तन, अर्थात् तान्त्रिक के छितरे सिरों का यंत्र द्वारा कर्तन
6.	जब निष्कर्षण, अर्थात्, तान्त्रिक से जल का यंत्र द्वारा निष्कर्षण या यंत्र द्वारा निष्कोट्टा जाना

[297/79-फा. सं. 357/7/79-टी. प्रार. सू.]

G.S.R. 645 (E). In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts man-made fabrics, falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when subjected to the finishing processes specified in the Table hereto annexed from the whole of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) :

Provided that no such exemption shall apply if man-made fabrics, falling under the said sub-item (1) are subjected to any process or processes specified in the said Table, within the same factory in which they have been subjected to any process, other than the processes specified in the Table.

THE TABLE

S. No.	Description
1	2
1.	Calendering with plain rollers;
2.	Singeing, that is to say, burning away of knots and loose ends in the fabric;
3.	Padding, that is to say, application of natural starch to one or both sides of the fabric;
4.	Back-filling, that is to say, application of starch to one side of the fabric; and
5.	Cropping, that is to say, cutting away mechanically of loose ends from the fabric; and
6.	Hydro-extraction, that is to say, mechanically extracting or mechanically squeezing out water from the fabric.

[297/79-F. No. 357/7/79-TRU]

सा० का० नि० 648 (घ) :—केन्द्रीय सरकार, प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश करती है कि इससे उपाय सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के, यथास्थिति, राजस्व और बीमा विभाग या राजस्व और बैंकिंग विभाग की प्रत्येक अधिसूचना को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्संबन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या पुनः संशोधित किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	179/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972	उक्त अधिसूचना में,— (क) परन्तु के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— “(i) शक्ति या वाष्प की सहायता के बिना प्रचालित मशीनों की सहायता से प्रसंस्कृत

1 2 3
कृत्रिम संतुष्टों पर संदेय शुल्क में बालीस प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी ;”

(ख) स्पष्टीकरण के खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) “प्रसंस्कृत” से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसका संचालन साधारणतया ऐसी मशीनों की सहायता से किया जाता है, जो बाहे शक्ति या वाष्प की सहायता से प्रचालित होती हैं अथवा उसके बिना :”

2. 61/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973, उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण के खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) “प्रसंस्कृत” से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसका संचालन साधारणतया ऐसी मशीनों की सहायता से किया जाता है, जो बाहे शक्ति या वाष्प की सहायता से प्रचालित होती हैं अथवा उसके बिना :”

3. 274/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1976 और 275/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1976, प्रत्येक अधिसूचना में, स्पष्टीकरण के खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) “प्रसंस्कृत” से, ऐसी सभी प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं, जो साधारणतया शक्ति या वाष्प की सहायता से की जाती हैं।”

[298/79-का० सं० 357/7/79—टी आर यू]

टी० आर० रस्तगी, प्रवर सचिव

G.S.R. 646 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1958), the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance or the Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

			1	2	3
S. No.	Notification No. and date	Amendment			
1	2	3			
1.	179/72-Central Excises, dated 24th July, 1972	In the said notification,— (a) for clause (i) of the proviso, the following clause shall be substituted, namely :— “(i) the duty payable on man-made fabrics processed with the aid of machines operated without the aid of power or steam shall be reduced by forty per cent; (b) for clause (i) of the Explanation, the following clause shall be substituted, namely :— “(i) “processed” means any process which is ordinarily conducted with the aid of machines, whether operated with or without the aid of power or steam;	2.	61/73-Central Excises, dated 1st March, 1973.	In the said notification for clause (i) of the Explanation, the following clause shall be substituted, namely :— “(i) “processed” means any process which is ordinarily conducted with the aid of machines whether operated with or without the aid of power or steam;”;
			3.	274/76-Central Excises, dated 13th November, 1976 and 275/76-Central Excises, dated 13th November, 1976.	In each of the notifications, for clause (iii) of the Explanation, the following clause shall be substituted, namely :— “(iii) “processed” means all processes which are ordinarily carried on with the aid of power or steam.’

[298/79-F. No. 357/7/79-TRU]

T.R. RUSTAGI, Under Secy.

